

कार्यालय अधिष्ठाता,
शासकीय चिकित्सा महाविद्यालय शहडोल (म.प्र.)

आवेदन का प्रारूप

..... के पद पर नियुक्त हेतु आवेदन पत्र (अंतिम तिथि / / 2019)

(नोट : सभी जानकारी आवेदक द्वारा पूर्ण की जावें।)

1. आवेदक का नाम.....
2. पुरुष / महिला
3. पिता / पति का नाम
4. वर्तमान निवास स्थान का पता (पिनकोड़ सहित)

-
शहर का नाम..... फोन न.....
मोबाइल नं. ईमेल आई.डी.
5. स्थाई पता

.....
शहर का नाम..... फोन नं.....

मोबाइल नं.....

6. आधार कार्ड नम्बर
7. जन्मतिथि (हाई स्कूल परीक्षा की अंकसूची संलग्न करें).....
8. दिनांक / / 2019 को आवेदक की आयु दिन माह वर्ष
9. आवेदक की वैवाहिक स्थिति – विवाहित / अविवाहित
10. विवाह की दिनांक
11. वर्ग : अनारक्षित / अनुसूचित जाति / अनुसूचित जनजाति / अन्य पिछड़ा वर्ग / विकलांग आरक्षित श्रेणी हेतु सक्षम अधिकारी द्वारा जारी प्रमाणपत्र की छायाप्रति संलग्न करें।

12. शैक्षणिक योग्यताएँ :- प्रमाण -पत्र एवं अंकसूची की सत्यापित छायाप्रति संलग्न करें

क्र.	परीक्षा का नाम	संस्था/बोर्ड/वि.वि	वर्ष	विषय	प्राप्तांक/पूर्णांक
1					
2					
3					
4					
5					

13. अस्पताल प्रबंधन संबंधी अनुभव :-

क्रमांक	पदनाम	शैक्षणिक अनुभव			
		दिनांक से	दिनांक तक	कुल अवधि	संस्था का नाम
1					
2					
3					
4					

(अनुभव प्रमाण पत्र संलग्न करें)

14. संलग्न प्रमाण पत्र की सूची

- | | |
|---------|---------|
| 1. | 2. |
| 3. | 4. |
| 5. | 6. |
| 7. | 8. |

स्थान

दिनांक

आवेदक का पूरा नाम एवं हस्ताक्षर

//घोषणा पत्र//

1. मैं प्रमाणित करता/करती हूँ कि मेरे द्वारा दी गई उपरोक्त जानकारी पूर्ण एवं सत्य है। जानकारी असत्य होने की दशा में मेरा आवेदन पत्र/ नियुक्ति पत्र निरस्त किया जा सकेगा।
2. मै. प्रमाणित करता/करती हूँ कि मुझे नैतिक पतन के किसी अपराध में किसी न्यायालय द्वारा न तो दोषी पाया गया है और न ही मेरे विरुद्ध इस प्रकार का कोई प्रकरण किसी भी न्यायालय में विचाराधीन है।

आवेदक का पूरा नाम एवं हस्ताक्षर